



22 कि०ग्रा० अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11.10.2021 SOG प्रभारी निरीक्षक एवं उनकी टीम व थाना राठ पुलिस द्वारा कस्बा राठ मे ही इनामिया अभियुक्त की तलाश एवं संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी इसकी दौरान जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि चरखारी की तरफ से चार पहिया गाडी मे दो लोग अवैध गांजा लेकर राठ की तरफ आ रहे है इस सूचना पर SOG प्रभारी टीम मय थाना राठ पुलिस टीम के साथ दो पुलिस पार्टी बनाकर राठ से चरखारी रोड पर पावर हाउस के पास चार पहिया गाडी के आने का इन्तजार करने लगे कि कुछ देर बाद एक गाडी चरखारी की ओर से आते दिखाई दी जिसे रोका तो यह देखकर गाडी को पीछे मोडकर भागने लगे कि दूसरी टीम मय गाडी से पीछे से आकर घेर लिया कि आगे की सीट पर बैठा एक व्यक्ति गेट खोलकर खेतो की तरफ तेजी से भागा व चालक को वही घेर कर पकड लिया गया। दूसरे व्यक्ति को पकडने को प्रयास किया गया जो अंधेरे का लाभ लेकर भागने मे सफल रहा। पकडे गये चालक से गाडी की डिग्गी खुलवाकर देखा गया तो एक बोरी पडी है जिसमे चालक अभियुक्त वशीम उल्ला द्वारा बताया गया कि इसमे गांजा है बोरी को गाडी से उतारकर खुलवाकर देखा गया तो बोरी मे रखी वस्तु की गन्ध गांजे जैसी आ रही थी तथा गाडी की तलाशी मे गाडी की अगली सीट के आगे पायदान (फर्स) पर एक अदद पैन कार्ड व एक अदद ATM कार्ड HDFC BANK मिला जिसके सम्बन्ध मे पूछा गया तो बताया कि यह सुरेन्द्र कुमार का है । पकडे गये व्यक्ति से गांजा रखने के सम्बन्ध मे अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखा नहीं सका। उसके जुर्म धारा 8/20 NDPS ACT से अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामद गांजा की तौल की गयी तो कुल वजन करीब 22 कि०ग्रा० पाया गया । गाडी मारूती विटारा ब्रेजा UP11BA 9206 रंग काला को कब्जा पुलिस मे लेकर अन्तर्गत धारा MV ACT के जरिये रिपोर्ट भेजी गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. वशीम उल्ला पुत्र शरीफ उल्ला नि० सैना रोड नगर वाईपास कस्बा व राठ जनपद हमीरपुर
2. (भागा हुआ) सुरेन्द्र कुमार पुत्र अज्ञात नि०मु० नई बस्ती चरखारी रोड कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदगी:-

1. 22 कि०ग्रा० नाजायज गांजा
2. एक अदद PAN CARD नं० ELXPK2613
3. एक अदद ATM CARD HDFC BANK
4. चार पहिया गाडी मारूती विटारा ब्रेजा UP11BA 9206 रंग काला

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SOG प्रभारी निरी० श्री विनोद कुमार राय
2. हे०का० रजत कुमार सिंह.....SOG टीम
3. हे०का० जितेन्द्र कुमार शुक्ला..SOG टीम
4. का० राजदीप...SOG टीम
5. उ०नि० श्री विजय सिंह थाना राठ
6. उ०नि० श्री चन्द्र कुमार सिंह थाना राठ
7. का० मो० अनस थाना राठ
8. म०आ० खुसबू टण्डन...थाना राठ

